

Printed from

इकनॉमिक टाइम्स

कार पूल वेबसाइट से किराया बचाएंगे दिल्लीवासी

1 Jul, 2008, 0042 hrs IST, इकनॉमिक टाइम्स

शीतल गौड़

नई दिल्ली: ग्यारह फीसदी पार कर चुकी महंगाई दर और पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों ने दिल्ली वालों को पैसे बचाने और कमाने के नए विकल्पों की ओर आकर्षित किया है। साझा कार मुहैया कराने वाली यानी कार पूल की वेबसाइट ट्रांसपोर्ट पर खर्चा बचाने के लिए नया विकल्प बनकर उभरी है और लोगों को परिवहन का सस्ता और बेहतर माध्यम भी मिल रहा है।

दिल्ली के द्वारका में रहने वाली ग्रेशिया शर्मा रोजाना ऑफिस के लिए द्वारका से गुडगांव तक जाती हैं और रोजाना तकरीबन 50 किलोमीटर से ज्यादा सफर करती हैं। द्वारका से गुडगांव तक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। एक दिन के लिए भी कैब या प्राइवेट टैक्सी का खर्च 400 रुपए से ज्यादा था जो आज महंगाई के दौर में निकालना उनके बजट से बाहर था। उन्होंने इससे निपटने के लिए साझा कार मुहैया कराने वाली वेबसाइट की खोज शुरू कर दी। दो हफ्ते बाद उन्हें उस रूट पर साझा कार मिल गई। दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव के यूसुफ भी अपने लिए ओखला तक अपनी साझा कार तलाश रहे हैं और उन्होंने भी वेबसाइट पर तलाश शुरू कर दी है।

कार पूल के जरिए एक ही रूट पर जाने वाले लोग गाड़ी शेयर करते हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों ने कार मालिकों का भी कार पूलिंग की ओर रुझान बढ़ाया है जिससे इनका खर्च भी कम हो जाता है। दिल्ली के सिविल लाइंस के वरुण शर्मा रोजाना सिविल लाइंस से अपने ऑफिस नेहरू प्लेस जाते हैं जो लगभग 25

किलोमीटर पड़ता है। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों ने उनके खर्च में 1,000 रुपए का इजाफा कर दिया है। अपने खर्च को कम करने के लिए उन्होंने कार पूलिंग वेबसाइट का सहारा लिया और अपने रूट पर जाने वाले अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी जिन्हें कार पूलिंग की जरूरत हो। उन्हें अपने रूट पर तीन और लोग मिल गए और समझदारी भरे इस तरीके से वरुण अपने ऑफिस आने-जाने के खर्च को कम कर सके।

[About Us](#) | [Advertise with Us](#) | [Careers @ TIL](#) | [Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#) | [Feedback](#) | [Sitemap](#)

Copyright © 2008 Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: [Times Syndication Service](#)

This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of

1024x768